

केवाई पोअना क्षेत्रांत अरवा मापरांस में पात्रीये
कामुदायन चरपा हात तअ सस अ हि मी ठा काय
सवंपा-चपवी परर-ररवा जं काय।

Schedule XLV-Form No. 134

रअरररमा का सररपा-126:5 B D/2019-20

रअरररमा का रीररि-39295521

DIVISION

कायपांअअरनेकी विवि-19.03.2020

कायपांअरनेकी विवि-16.03.2021.

SUB-DIVISION

सररअ-अरवा जं काय।

Measurement Book

मापरांस की सररपा-842/2019-20

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्तक में उचित रूप से पन्ने हैं
जो श्री निरंजन कुमार साहा एवं अमि
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अपर प्रमंडल
भरगामा के नाम से निर्गत किया
जाता है।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फरादिसगंज
11/03/2020

Sch. XLV - Form No. 134

C.C. 3,65,65,989 = DIVISION
M.C. 2,3,3,63 = SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 842-
2019-20

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

3rd (Third) on A/C

27

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Naame of work - Constn of road from Vatri Road Daulaha to Charaiya hat with five pss mainte under NABARD.					
Agency - Ashok Kumar					
Agg. No. - 126-SB D/19-20					
Date of Commencement - 17/03/20					
Date of Completion - 16/03/21					
Agg. Value - Constn -			365,65,989 =		
Mainte =			27,30,963 =		
Total as			392,96,952 =		
Rate of agg. measurement - 10 % below					
C.P. Record Measurement					
1) E/W in excavation - all Const					
1 x 8.50 x 2.00 x 1.70 = 28.90 m ³					
ie 28.90 m ³					
2) Plv p.c.m. 15 m bound					
1 x 8.50 x 2.00 x 0.20 = 3.40 m ³					
ie 3.40 m ³					
3) Plv p.c.m. 15 m Sub-structure.					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
① Setting out pillars - also all comp.					
Qty vide TMBP/19 item ①					
24 Nos @ Rs 1997.00/eaches					47928.00
② clearing & grubbing road land.					
Qty vide TMBP/19 item ②					
2.20 Hect @ Rs 50162.10/H = 8					110357.00
③ Dismantling of existing structure.					
③ Cement concrete.					
Qty vide TMBP/19 item ③ ③					
90.00 m ³ @ Rs 470.37/m ³ ⇒					42333.00
④ Excavation for road work in soil					
Qty vide TMBP/19 item ④					
78.75 m ³ @ Rs 130.85/m ³ ⇒					10304.00
Continuation					
M 2109222a					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					210922
⑤ Contn of embankment					
15	do	TS	301.5		
Qty videtms P/20 item ⑤					
15704.372	m ³	②	155.76	m ³	2446113
⑥ Contn of masonry					
13	do	TS	401		
Qty videtms P/29 item ⑥ = 112.50 m ³					
4	"	"	P/20 item ⑥ = 4040.52		
			4153.02	m ³	
			②	357.26	m ³
					1461555
⑦ P.V. laying, spreading					
15	& Compacting - do - 40 m				
	Ch. 3	do	TS	405	
Qty videtms P/20 item ⑦ = 843.75 m ³					
"	"	"	P/29 item ⑦ = 632.82		
			1476	57 m ³	
			②	4588.22	m ³
					6774828
⑧ E.W. in excavation for					
22	structure				
Qty videtms P/25 item ⑧ = 353.61 m ³					
1	"	"	P/27 item ⑧ = 28.90		
			382.51	m ³	
			②	264.07	m ³
					101009
Continuation					A 24148429

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	N _o .	L.	B.	D.	
					6 24148429
⑨ 23 Laying 1st class bedding do 1st class					
Qty vide TMB P/2, item ⑨					
21.60 m ³ @ 385.75 m ³					8332
⑩ 24 Filling in foundry trenches					
Qty vide TMB P/2, item ⑩					
61.75 m ³ @ 385.42 m ³					23800
⑪ 26 Air P.C.C. m-15 in open & under					
Qty vide TMB P/2, item ⑪					
#67 = 162.75 m ³					
" " " P/27 item ⑫ = 3.40					
166.11 m ³					
@ 6138.32 m ³					1019636
⑫ 27 Air P.C.C. m-15 in sub- structure					
Qty vide TMB P/2, item ⑫ = 184.18 m ³					
" " " P/28 item ⑬ = 10.80					
194.98 m ³					
@ 6362.61 m ³					1246431
Continuation					6 26446628

Continuation
$$\Delta 26630812 = a$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					M 26630812=
(17) Back filling behind					
37 abutment wing wall					
R/wy - do - all Comp.					
Qty vide Tm B P/23 item (17)					
115.52 $\frac{3}{m}$	(CM)	629.83	$\frac{3}{m}$	Δ	72758=
(18) Plr R.C.M 20 m Sub					
29 structure					
Qty vide Tm B P/23 item (18)					
8.52 $\frac{3}{m}$	(CM)	7398.37	$\frac{3}{m}$	Δ	63034=
(19) Plr R.C.M 25 m					
40 Super-structure					
Qty vide Tm B P/23 item (19) = 10.76 $\frac{3}{m}$					
" " " P/28 item (5) = 3.60					
					14.36 $\frac{3}{m}$
	(CM)	8248.69	$\frac{3}{m}$	Δ	118451=
(20) S/F/F HYSD bar ren					
41 Reinforcement in Super-					
structure					
Qty vide Tm B P/23 item (20) = 0.712 $\frac{3}{m}$					
" " " P/28 item (4) = 0.305					
					1.017 $\frac{3}{m}$
	(CM)	70175.50	$\frac{3}{m}$	Δ	71368=

Continuation

A 26956423=

